

## प्रेस नोट

दिनांक 19.10.2021

सराहनीय कार्य थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी

चोरी की 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 मोबाइल फोन व 4000/ रूपये नगद के साथ 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18.10.2021 को उ0नि0 संकठा प्रसाद मौर्या थाना मुसाफिरखाना मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित के दौरान मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्त 1.विजय कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद, 2.प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 जयराम, 3.वीरेन्द्र मिश्रा पुत्र भवानी प्रसाद को रामलीला मैदान के पास से समय करीब 06:30 बजे शाम गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त विजय कुमार के कब्जे से चोरी का 01 अदद मोबाइल फोन व 800/ रूपये नगद, अभियुक्त प्रमोद कुमार के कब्जे से चोरी के 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 1200/ रूपये नगद व अभियुक्त वीरेन्द्र मिश्रा के कब्जे से चोरी एक टुकड़ा पीली धातु व 2000/ रूपये नगद बरामद हुआ । पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम तीनों ने मिलकर भिन्न-भिन्न दिनों में कस्बा मुसाफिरखाना से एक व्यक्ति की जेब से मोबाइल चोरी किये थे, ग्राम पलिया पूरब के पास एक स्कूटी सवार महिला से चैन छीनकर भाग गए थे तथा ग्राम पूरे दुखछोर नारा अढ़नपुर में एक व्यक्ति के घर में चोरी किये थे, बरामद सामान व रूपये उसी चोरी व लूट के हैं । थाना मुसाफिरखाना द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. विजय कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद नि0 इसौली थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर ।
2. प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 जयराम नि0 इसौली थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर ।
3. वीरेन्द्र मिश्रा पुत्र भवानी प्रसाद नि0 सरैया तालुकेदार थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

### बरामदगी-

- चोरी की 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 मोबाइल फोन व 4000/ रूपये नगद ।

### पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही -

1. मु0अ0सं0 250/2021 धारा 457,380,411 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 256/2021 धारा 392,411 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 397/2021 धारा 379,411 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

### गिरफ्तारी टीम –

1. उ0नि0 संकठा प्रसाद मौर्या थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
2. हे0का0 घनश्याम यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 विनय मिश्रा थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
4. का0 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।